



# भारत का राजपत्र The Gazette of India


असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 23] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 1, 1977/सा 12, 1898

No. 23] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 1, 1977/MAGHA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि वह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed  
as a separate compilation

## DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

### PUBLIC NOTICES

New Delhi, the 1st February, 1977

**No. DRAWBACK/PN-3/77**—Under rule 4 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F-No. 62/2/70-DEK published in the Gazette of India, Extraordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time.

1. Sub-Serial No. 2607 and the entries relating thereto shall be deleted.
2. After sub-serial No. 2706 and the entries relating thereto the following shall be inserted.

Sub-S1 No.	Description of goods	Rate of drawback
2707	Hosiery articles made of cotton yarn including those made of knitted fabrics of cotton yarn—	
	(a) Where the f.o.b. value of cotton hosiery is up to Rs 70/- per Kg. or below.	2% (Two per cent only) of the f.o.b. value
	(b) where the f.o.b. value of cotton hosiery is above Rs. 70/- per Kg.	4% (Four per cent only) of the f.o.b. value or Rs. 5.00 (Rupees five only) per Kg. whichever is less.

## राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

सार्वजनिक सूचनाएं

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1977

सं० प्रतिप्रदायगी/सा०सू० 3/77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिप्रदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण, दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/का० सं० 602/2/70 प्र० अ०) के नियम 4 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना सं० प्रतिप्रदायगी/सा० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा, निम्नलिखित संशोधन करती है :—

1. उपक्रमांक 2607 और तत्संबन्धी प्रविष्टियों को हटा दिया जायगा ।

2. उपक्रमांक 2706 और तत्संबन्धी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जायगा ।

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिप्रदायगी की दर
2707	सूती धागे से निर्मित होजरी का सामान जिनमें सूती धागे से बने हुए वस्त्र शामिल हैं	
	(क) जिनमें सूती होजरी का पोत	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 70 ० प्रति प्रतिशत (केवल दो प्रतिशत) कि० ग्रा० तक अथवा इससे कम हो ।
	(ख) जिनमें सूती होजरी का पोत	पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 4 पर्यन्त निःशुल्क मूल्य 70 रु० प्रतिशत (केवल चार प्रतिशत) प्रति कि० ग्रा० से अधिक हो । अथवा 5.00 रु० (केवल पांच रुपए) प्रति कि० ग्रा०, इनमें से जो भी कम हो ।

**NO. DRAWBACK/PN-4/77.**—Under rule 3 of the Customs and Central Excise Duties Drawback Rules, 1971 (Notification No. 52/F.No. 602/2/70-DBK published in the Gazette of India, Extra ordinary, dated the 25th August, 1971), the Central Government hereby makes the following amendments in the Table published in the Public Notice No. DRAWBACK/PN-1 dated the 15th October, 1971 as amended from time to time :—

After sub-serial No. 4703 and the entries relating thereto, the following sub-serial No. and the entries shall be inserted, namely :—

Sub-Sl. No.	Description of goods	Rate or drawback
4704	Silicon Semi-Conductor Transistors	20% (Twenty per cent only) of the f.o.b. value.

All brand rates fixed for individual manufacturer/exporter in respect of the above goods will stand withdrawn with the coming into effect of this Public Notice.

C. D. RANGACHARI, Dy. Secy.

सं० प्रतिअदायगी/सां० सू० 4/77.—सीमाशुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क प्रतिअदायगी नियमावली, 1971 (भारत के राजपत्र, असाधारण दिनांक 25 अगस्त, 1971 में प्रकाशित अधिसूचना सं० 52/फा० संख्या 602/ 2/70 प्र० अ०) के नियम 3 के अधीन, केन्द्रीय सरकार सार्वजनिक सूचना संख्या प्रतिअदायगी/ सां० सू० 1, दिनांक 15 अक्तूबर, 1971 में प्रकाशित सारणी में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करती है :—

उपक्रमांक 4703 और तत्संबंधी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित उपक्रमांक और प्रविष्टियाँ अन्तःस्थापित की जायेगी, अर्थात् :—

उपक्रमांक	माल का विवरण	प्रतिअदायगी की दर
4704	सिलीकन अर्ध संचालक ट्राजिस्टर	पोत पर्यन्त नि.शुल्क मूल्य का 20 प्रतिशत (केवल बीस प्रतिशत) ।

उपर्युक्त माल के संबंध में अलग-अलग निर्माता/निर्यातकर्ता के लिए निर्धारित सभी बाड़ दरें इस सार्वजनिक सूचना के लागू होने पर वापिस ले ली गयी समझी जायेगी ।

सी० डी० रंगाचारी, उप सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा  
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD,  
NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1977

